

Lev

Chapter 27

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 וַיִּדְבֹר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר:
और-बोला यहोवा से-मूसा कहते हुए
H1696 H3068 H0413 H4872 H0559

यहोवा ने मूसा से कहा,

2 דַּבֵּר בְּעַרְכֶּךָ אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ מִנּוּשְׁבוֹתָיִם יִשְׂרָאֵל וְיָבֹל לְיְהוָה וְנִפְשָׁתָם
तेरे-मूल्यांकन-में मन्नत विशेष माने जब मनुष्य उन-से और-कह इस्राएल पुत्रों से-बोल
H6187 H5088 H6381 H0376 H0413 H0559 H3478 H0413 H1696
:לְיְהוָה וְנִפְשָׁתָם
यहोवा-के-लिए प्राणियों
H3068 H5315

“इस्राएल के लोगों से कहो: कोई व्यक्ति यहोवा को विशेष वचन दे सकता है। वह व्यक्ति यहोवा को किसी व्यक्ति को अर्पित करने का वचन दे सकता है। वह व्यक्ति यहोवा की सेवा विशेष ढंग से करेगा। याजक उस व्यक्ति के लिए विशेष मूल्य निश्चित करेगा। यदि लोग उसे यहोवा से वापस खरीदना चाहते हैं तो वे मूल्य देंगे।

3 וְהָיָה אִישׁ מִבְּנֵי הָזָכָר עֶרְכָּךְ וְהָיָה אִישׁ מִבְּנֵי הָזָכָר עֶרְכָּךְ וְהָיָה אִישׁ מִבְּנֵי הָזָכָר עֶרְכָּךְ
और-होगा वर्ष साठ उम्र-और-तक वर्ष बीस से-उम्र पुरुष-का तेरा-मूल्यांकन और-होगा
H1961 H8141 H8346 H5704 H8141 H6242 H2145 H6187 H1961
:הַקֹּדֶשׁ בְּשֵׁקֶל כֶּסֶף שְׁקֵל חֲמִישִׁים עֶרְכָּךְ
पवित्र-स्थान-के में-शकेल चाँदी शेकेल पचास तेरा-मूल्यांकन
H6944 H8255 H3701 H8255 H2572 H6187

बीस से साठ वर्ष तक की आयु के पुरुष का मूल्य पचास शेकेल चाण्दी होगी। (तुम्हें चाँदी को तोलने के लिए पवित्र स्थान से प्रामाणिक शेकेल का उपयोग करना चाहिए।)

4 וְאִם-נְקִיבָהּ וְהָיָה הוּא וְאִם-נְקִיבָהּ וְהָיָה הוּא
और-अगर-स्त्री वह और-होगा वह
H8255 H7970 H6187 H1961 H1931 H5347

बीस से साठ वर्ष की आयु की स्त्री का मूल्य तीस शेकेल है।

5 וְאִם-מִבְּנֵי הָזָכָר עֶרְכָּךְ וְהָיָה אִישׁ מִבְּנֵי הָזָכָר עֶרְכָּךְ
और-अगर-से-उम्र-पुरुष-का तेरा-मूल्यांकन और-होगा वर्ष बीस उम्र-और-तक वर्ष पाँच
H2145 H6187 H1961 H8141 H6242 H5704 H8141 H2568
:שְׁקֵלִים עֶרְכָּךְ וְלִנְקִיבָהּ וְהָיָה אִישׁ מִבְּנֵי הָזָכָר עֶרְכָּךְ
शकेल दस और-स्त्री-के-लिए शेकेल बीस
H8255 H6235 H5347 H8255 H6242

पाँच से बीस वर्ष आयु के पुरुष का मूल्य बीस शेकेल है। पाँच से बीस वर्ष आयु की स्त्री का मूल्य दस शेकेल है।

6 וְאִם-מִבְּנֵי הָזָכָר עֶרְכָּךְ וְהָיָה אִישׁ מִבְּנֵי הָזָכָר עֶרְכָּךְ
और-अगर-से-उम्र-पुरुष-का तेरा-मूल्यांकन और-होगा वर्ष पाँच उम्र-और-तक महीना से-उम्र-और-अगर
H2568 H2145 H6187 H1961 H8141 H2568 H5704 H2320
:שְׁקֵלִים עֶרְכָּךְ וְלִנְקִיבָהּ וְהָיָה אִישׁ מִבְּנֵי הָזָכָר עֶרְכָּךְ
चाँदी शेकेल तीन तेरा-मूल्यांकन और-स्त्री-के-लिए चाँदी शेकेल
H3701 H8255 H7969 H6187 H5347 H3701 H8255

एक महीने से पाँच महीने तक के बालक का मूल्य पाँच शेकेल है। एक बालिका का मूल्य तीन शेकेल है।

עֶשֶׂר	חֲמִשָּׁה	עֶרְבֹךָ	וְהִיא	זָכָר	אִם-	וְמוֹעֵלָהּ	שָׁנָה	שְׁשִׁים	מִבֶּן-	וְאִם	7
दस	पंद्रह	तेरा-मूल्यांकन	और-होगा	पुरुष	अगर-	और-ऊपर	वर्ष	साठ	से-उम्र-	और-अगर	
H6240	H2568	H6187	H1961	H2145		H4605	H8141	H8346			

שֶׁקֶל	עֶשְׂרָה	וְלִנְקָבָה	שֶׁקֶלִים:
शेकेल	दस	और-स्त्री-के-लिए	शेकेल
H8255	H6235	H5347	H8255

साठ या साठ से अधिक आयु के पुरुष का मूल्य पन्द्रह शेकेल है। एक स्त्री का मूल्य दस शेकेल है।

אִתּוֹ	וְהִעֲרִיף	הַכֹּהֵן	לְפָנַי	וְהִעֲמִידוּ	מִעֲרֹכְךָ	הוּא	מָרָה	וְאִם-	8
उसे	और-मूल्यांकन करेगा	याजक-के	सामने	और-खड़ा किया जाए उसे	तेरे-मूल्यांकन-से	वह	गरीब	और-अगर-	
H0853		H3548	H6440	H5975	H6187	H1931	H4134		

ס	הַכֹּהֵן:	וְעֲרִיבְנוּ	הַנָּזִיר	יָד	תְּשִׁיבֵנִי	אֲשֶׁר	פִּי	עַל-	הַכֹּהֵן
—	याजक	मूल्यांकन करेगा उसका	मन्नत करने-वाले-का	हाथ	पहुंचेगी	जो	मुंह	के-अनुसार-	याजक
	H3548		H5087	H3027	H5381		H6310		H3548

“यदि व्यक्ति इतना गरीब है कि मूल्य देने में असमर्थ है तो उस व्यक्ति को याजक के सामने लाओ। याजक यह निश्चित करेगा कि वह व्यक्ति कितना मूल्य भुगता में दे सकता है।

מִמֶּנּוּ	יִתֵּן	אֲשֶׁר	כָּל־	לִיהוָה	קָרְבָּן	מִמֶּנּוּ	יִקְרִיבוּ	אֲשֶׁר	בְּהֵמָה	וְאִם-	9
उस-में-से	देगा	जो	सब	यहोवा-के-लिए	चढ़ावा	उस-में-से	चढ़ाते हैं	जो	पशु	और-अगर-	
	H5414		H3605	H3068			H7126		H0929		

קָדָשׁ:	יְהִי־הָ	לִיהוָה
पवित्र	होगा-	यहोवा-के-लिए
H6944	H1961	H3068

“कुछ जानवरों का उपयोग यहोवा की बलि के रूप में किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति उन जानवरों में से किसी को लाता है तो वह जानवर पवित्र हो जाएगा।

וְאִם-	בְּטוֹב	רָע	או־	בְּרָע	טוֹב	אִתּוֹ	יִמִּיר	וְלֹא-	יִחַלְפִּנּוּ	לֹא	10
और-अगर-	में-अच्छा	बुरा	या-	में-बुरा	अच्छा	उसे	अदला करेगा	और-नहीं-	बदलेगा उसे	नहीं	
						H0853	H4171	H3808	H2498	H3808	

קָדָשׁ:	יְהִי־הָ	וּתְמוֹרְתוֹ	הוּא	וְהִי־הָ	בְּבֵהֶמָה	בְּבֵהֶמָה	יִמִּיר	הַמִּיר
पवित्र	होगा-	और-इसकी-अदला	वह	और-होगा-	में-पशु	पशु	अदला करेगा	अदला करते-हुए
H6944	H1961	H8545	H1931	H1961	H0929	H0929	H4171	H4171

वह व्यक्ति यहोवा को उस जानवर को देने का वचन देता है। इसलिए उस व्यक्ति को उस जानवर के स्थान पर दूसरा जानवर रखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उसे अच्छे जानवर को बुरे जानवर से नहीं बदलना चाहिए। उसे बुरे जानवर को अच्छे जानवर से नहीं बदलना चाहिए। यदि वह व्यक्ति दोनों जानवरों को बदलना ही चाहता है तो दोनों जानवर पवित्र हो जाएंगे। दोनों जानवर यहोवा के हो जाएंगे।

לִיהוָה	קָרְבָּן	מִמֶּנּוּ	יִקְרִיבוּ	לֹא-	אֲשֶׁר	טְמֵאָה	בְּהֵמָה	כָּל-	וְאִם	11
यहोवा-के-लिए	चढ़ावा	उस-में-से	चढ़ाते हैं	नहीं-	जो	अशुद्ध	पशु	कोई-	और-अगर	
H3068			H7126	H3808		H2931	H0929	H3605		

הַכֹּהֵן:	לְפָנַי	תְּבַהֲמָה	אֶת-	וְהִעֲמִידוּ
याजक-के	सामने	पशु	को-	और-खड़ा करेगा
H3548	H6440	H0929	H0853	H5975

“कुछ जानवर यहोवा को बलि के रूप में नहीं भेंट किए जा सकते। यदि कोई व्यक्ति उन अशुद्ध जानवरों में से किसी को यहोवा के लिए लाता है तो वह जानवर याजक के सामने लाया जाना चाहिए।

כָּן वैसा	הַכֹּהֵן याजक	כְּעֶרְכָּךָ जैसे-तेरा-मूल्यांकन	רָע बुरा	וּבֵין और-बीच	טוֹב अच्छा	בֵּין बीच	אֵתָהּ उसका	הַכֹּהֵן याजक	וְהֶעֱרִיף और-मूल्यांकन करेगा
	H3548	H6187		H0996		H0996	H0853	H3548	

יְהִיָּה:
होगा
[H1961](#)

याजक उस जानवर का मूल्य निश्चित करेगा। इससे कोई जानवर नहीं कहा जाएगा कि वह जानवर अच्छा है या बुरा, यदि याजक मूल्य निश्चित कर देता है तो जानवर का वही मूल्य है।

וְאִם- और-अगर-	נָאֵל छुड़ाना	וַיִּנְאֲלֶנָּה छुड़ाएगा उसे	וַיִּסַּף और-जोड़ेगा	חֲמִישָׁתוֹ उसका-पाँचवाँ	עַל- पर-	עֶרְכָּךָ: तेरे-मूल्यांकन
			H3254	H2549		H6187

यदि व्यक्ति जानवर को वापस खरीदना चाहता है। तो उसे मूल्य में पाँचवाँ हिस्सा और जोड़ना चाहिए।

וְאִישׁ और-मनुष्य	כִּי- जब-	וַיִּקְרָשׁ पवित्र करेगा	אֶת- को-	בֵּיתוֹ अपना-घर	קִדְשׁ पवित्र	לְיְהוָה यहोवा-के-लिए	וְהֶעֱרִיכוּ और-मूल्यांकन करेगा	הַכֹּהֵן याजक
		H6942	H0853	H6944		H3068	H3548	H3548

בֵּין बीच	טוֹב अच्छा	וּבֵין और-बीच	רָע बुरा	כְּאִשֶּׁר जैसा	מְעֲרִיף मूल्यांकन करेगा	אֵתוֹ उसे	הַכֹּהֵן याजक	כָּן वैसा	יָקוּם: होगा
		H0996				H0853	H3548		

“यदि कोई व्यक्ति अपने मकान को पवित्र मकान के रूप में यहोवा को अर्पित करता है तो याजक को इसका मूल्य निश्चित करना चाहिए। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि मकान अच्छा है या बुरा, यदि याजक मूल्य निश्चित करता है तो वही मकान का मूल्य है।

עָלָיו उस-पर	עֶרְכָּךָ तेरे-मूल्यांकन-की	כֶּסֶף- चाँदी-	חֲמִישִׁית पाँचवाँ	וַיִּסַּף और-जोड़ेगा	בֵּיתוֹ अपना-घर	אֶת- को-	וַיִּנְאֲלֶנָּה छुड़ाएगा	הַמְקָרִישׁ पवित्र करने-वाला	וְאִם- और-अगर-
	H6187	H3701	H2549	H3254		H0853	H6942	H6942	

לְוָ:
उसका

וְהָיָה
और-होगा
[H1961](#)

किन्तु वह व्यक्ति जो मकान अर्पित करता है यदि उसे वापस खरीदना चाहता है तो उसे मूल्य में पाँचवाँ हिस्सा जोड़ना चाहिए। तब घर उस व्यक्ति का हो जाएगा।

לְכִי के-अनुसार	עֶרְכָּךָ तेरा-मूल्यांकन	וְהָיָה और-होगा	לְיְהוָה यहोवा-के-लिए	אִישׁ मनुष्य	וַיִּקְרָשׁ पवित्र करेगा	אֶת- अपनी-भूमि-के	מִשְׁחָה से-खेत	וְאִם और-अगर
	H6187	H1961	H3068	H0376	H6942	H0272		

זָרְעוֹ इसके-बीज	זָרַע बीज	חֹמֶר होमेर	שְׁעָרִים जौ-का	בַּחֲמִשִּׁים में-पचास	שֶׁקֶל शकेल	כֶּסֶף: चाँदी
	H2233	H2233	H8184	H2572	H8255	H3701

“यदि कोई व्यक्ति अपने खेत का कोई भाग यहोवा को अर्पित करता है तो उन खेतों का मूल्य उनको बोने के लिए आवश्यक बीज पर आधारित होगा। एक होमेर जौ के बीज की कीमत चाँदी के पचास शकेल होगी।

אִם- अगर-	מִשְׁנַת से-वर्ष	הַיָּבֵל योबेल-के	וַיִּקְרָשׁ पवित्र करेगा	שְׁחָה अपना-खेत	כְּעֶרְכָּךָ जैसे-तेरा-मूल्यांकन	יָקוּם: होगा
	H8141	H3104	H6942		H6187	

यदि व्यक्ति जुबली के वर्ष खेत का दान करता है तब मूल्य वह होगा जो याजक निश्चित करेगा।

18 וְאִם- אַחַר הַיָּבֵל יִקְרֶיֶשׁ שְׂדֵהוֹ וְחָשַׁב- לוֹ הַכֹּהֵן אֶת- הַכֶּסֶף
 और-गिनेगा- अपना-खेत पवित्र करेगा योबेल-के बाद और-अगर-
[H3701](#) [H0853](#) [H3548](#) [H2803](#) [H6942](#) [H3104](#)

עַל- כִּי הַשָּׁנִים הַנּוֹתְרוֹת עַד שְׁנַת הַיָּבֵל וְנִדְרָע מֵעֲרֻכָּהּ
 के-अनुसार- मुंह वर्षों बची-हुई वर्ष और-घटाया जाएगा और-मूल्यांकन-से
[H6187](#) [H1639](#) [H3104](#) [H8141](#) [H5704](#) [H3498](#) [H8141](#) [H6310](#)

किन्तु व्यक्ति यदि जुबली का बाद खेत का दान करता है तो याजक को वास्तविक मूल्य निश्चित करना चाहिए। उसे अगले जुबली वर्ष तक के वर्षों को गिनना चाहिए। तब वह उस गणना का उपयोग मूल्य निश्चित करे के लिए करेगा।

19 וְאִם- נָאֵל וְנָאֵל יִנָּאֵל אֶת- הַשְּׂדֵה הַמִּקְרִישׁ אֹתוֹ וְיֹסֵף אִתּוֹ חֲמִשִּׁית כֶּסֶף-
 और-अगर- छुड़ाया छुड़ाना और-अगर- छुड़ाया को- खेत पवित्र करने-वाला उसे और-जोड़ेगा पाँचवाँ चाँदी-
[H3701](#) [H2549](#) [H3254](#) [H0853](#) [H6942](#) [H0853](#)

עֲרֻכָּהּ עָלָיו וְקָם לוֹ
 तेरे-मूल्यांकन-की उस-पर और-स्थापित होगा उसके-लिए
[H6187](#)

यदि खेत दान देने वाला व्यक्ति खेत को वापस खरीदना चाहे तो उसके मूल्य में पाँचवाँ भाग और जोड़ा जाएगा।

20 וְאִם- לֹא יִנָּאֵל אֶת- הַשְּׂדֵה וְאִם- מָכַר אֶת- הַשְּׂדֵה לְאִישׁ אַחֵר לֹא
 और-अगर- नहीं छुड़ाया छुड़ाया को- खेत खेत और-अगर- बचा और-अगर- दूसरे को-मनुष्य नहीं
[H3808](#) [H0312](#) [H0376](#) [H0853](#) [H4376](#) [H0853](#) [H3808](#)

יִנָּאֵל עוֹד
 छुड़ाया जाएगा फिर
[H5750](#)

यदि वह व्यक्ति खेत को वापस नहीं खरीदता है तो खेत सदैव याजकों का होगा। यदि खेत किसी अन्य को बचा जाता है तो पहलपा व्यक्ति उसे वापस नहीं खरीद सकता।

21 וְהָיָה וְהָיָה הַשְּׂדֵה בְּיָבֵל קָדֵשׁ לַיהוָה לִיהוָה לִיהוָה לִכְהֵן
 और-होगा और-होगा खेत खेत योबेल-में पवित्र योहोवा-के-लिए योहोवा-के-लिए याजक-के-लिए
[H3548](#) [H3068](#) [H6944](#) [H3104](#) [H3318](#) [H1961](#)

וְהָיָה אֶחָדוֹ
 होगी इसकी-भूमि
[H0272](#) [H1961](#)

यदि व्यक्ति खेत को वापस नहीं खरीदता है तो जुबली के वर्ष खेत केवल योहोवा के लिए पवित्र रहेगा। यह सदैव याजकों का रहेगा। यह उस भूमि की तरह होगा जो पूरी तरह योहोवा को दे दी गई हो।

22 וְאִם- אֶת- שְׂדֵה מִקְנָתוֹ אֲשֶׁר לֹא מִשְׂדֵה אַחֲזָתוֹ יִקְרֶיֶשׁ לַיהוָה
 और-अगर- को- खेत खेत उसकी-खरीद-का जो नहीं खेत-से अपनी-भूमि-का पवित्र करेगा योहोवा-के-लिए
[H3068](#) [H6942](#) [H0272](#) [H3808](#) [H4736](#) [H0853](#)

“यदि कोई अपने खरीदे खेत को योहोवा को अर्पित करता है जो उसकी निजी सम्पत्ति का भाग नहीं है।

23 וְחָשַׁב- לוֹ הַכֹּהֵן אֶת- מִכְסָּת הַכֹּהֵן וְנָתַן וְהַיָּבֵל שְׁנַת עַד הָעֲרֻכָּהּ
 और-गिनेगा- उसके-लिए याजक को- याजक मात्रा को- देगा और-योबेल-के वर्ष तक तेरे-मूल्यांकन-की
[H0853](#) [H5414](#) [H3104](#) [H8141](#) [H5704](#) [H6187](#) [H4373](#) [H0853](#) [H3548](#) [H2803](#)

הָעֲרֻכָּהּ בְּיוֹם הַחֹוֹא קָדֵשׁ לַיהוָה
 मूल्यांकन में-दिन उस पवित्र योहोवा-के-लिए
[H3068](#) [H6944](#) [H1931](#) [H3117](#) [H6187](#)

तब याजक को जुबली के वर्ष तक वर्षों को गिनना चाहिए और खेत का मूल्य निश्चित करना चाहिए। तब वह खेत योहोवा का होगा।

24 בְּשַׁנַּת הַיָּבֵל יִשׁוּב הַשְּׂדֵה לְאִשְׁרָיִם לֹאֲשֶׁר לֹאֲשֶׁר- לוֹ אֶחָדוֹת הָאָרֶץ
 में-वर्ष योबेल-के लौटेगा खेत खेत उसके-लिए उसके-लिए उससे जिसने खरीदा उसे उसकी-भूमि जिसकी देश-की
[H0776](#) [H0272](#) [H0854](#) [H7069](#) [H0854](#) [H7069](#) [H7225](#) [H3104](#) [H8141](#)

जुबली के वर्ष वह खेत मूल भूस्वामी के पास चला जाएगा। वह उस पर्वार को जाएगा जो उसका स्वामी है।

25	וְכָל- और-सब-	עֲרֹכָהּ- तेरा-मूल्यांकन	יְהוּהָ- होगा	בְּשִׁקְלָהּ- में-शकेल	הַקֶּדֶשׁ- पवित्र-स्थान-के	עֲשָׂרִים- बीस	גֵּרָה- गेरा	יְהוּהָ- होगा	הַשִּׁקְלָהּ- शकेल	ו- —
	H3605	H6187	H1961	H8255	H6944	H6242	H1626	H1961	H8255	H255

“तुम्हें पवित्र स्थान से प्रामाणिक शेकेल का उपयोग उन मूल्यों को अदा करने के लिए करना चाहिए। पवित्र स्थान के प्रामाणिक शेकेल का तोल बीस गेरा है।

26	אֶת- केवल-	בְּלוֹת- पहलौठा	אֲשֶׁר- जो-	יִבְכֹּר- पहलौठा है	לְיְהוּהָ- यहोवा-के-लिए	בְּבִהְמָה- पशु-में	לֹא- नहीं-	יִקְרִישׁ- पवित्र करेगा	אִישׁ- मनुष्य	אֲתוֹ- उसे	אֶם- अगर-
	H0389	H1060	H1069	H1069	H3068	H0929	H3808	H6942	H0376	H0853	
	וְשֹׁר- बैल	אֶם- अगर-	שָׁה- भेड़	לְיְהוּהָ- यहोवा-के-लिए	הוּא- वह						
	H7794		H7716	H3068	H1931						

“लोग मवेशियों और भेड़ों को यहोवा को दान दे सकते हैं, किन्तु यदि जानवर पहलौठा है तो वह जानवर जनम से ही यहोवा का है। इसलिए लोग पहलौठा जानवर का दान नहीं कर सकते।

27	וְאִם- और-अगर	בְּבִהְמָה- पशु-में	הַשְּׂמֹאָה- अशुद्ध-का	וּפְדָהּ- और-छुड़ाए	בְּעֶרְכָּהּ- तेरे-मूल्यांकन-में	וַיִּסַּף- और-जोड़ेगा	חֲמִשָּׁתוֹ- उसका-पाँचवाँ	עָלָיו- उस-पर	וְאִם- और-अगर
		H0929	H2931	H6299	H6187	H3254	H2549		
	לֹא- नहीं	יִגָּאֵל- छुड़ाया जाए	וְנִמְכָּר- और-बेचा जाएगा	בְּעֶרְכָּהּ- तेरे-मूल्यांकन-में					
	H3808		H4376	H6187					

लोगों को पहलौठा जानवर यहोवा को देना चाहिए। किन्तु यदि पहलौठा जानवर अशुद्ध है तो व्यक्ति को उस जानवर को वापस खरीदना चाहिए। याजक उस जानवर का मूल्य निश्चित करेगा और व्यक्ति को उस मूल्य का पाँचवाँ भाग उसमें जोड़ना चाहिए। यदि व्यक्ति जानवर को वापस नहीं खरीदता तो याजक को अपने निश्चित किए गए मूल्य पर उसे बेच देना चाहिए।

28	אֶת- केवल-	כֹּל- कोई-	חָרָם- समर्पित	אֲשֶׁר- जो	יִתְּרָם- समर्पित करेगा	אִישׁ- मनुष्य	לְיְהוּהָ- यहोवा-के-लिए	מִכָּל- से-सब-	אֲשֶׁר- जो	לֹא- उसका	מֵאֲדָם- मनुष्य-से
	H0389	H3605				H0376	H3068	H3605		H0120	
	וּבִהְמָה- और-पशु	וּמִשְׁתָּהּ- और-खेत-से	אֲחֻזָּתוֹ- अपनी-भूमि-का	לֹא- नहीं	יִמְכָּר- बेचा जाएगा	וְלֹא- और-नहीं	יִגָּאֵל- छुड़ाया जाएगा	כָּל- सब-	חָרָם- समर्पित	קִדְשׁ- पवित्र-	
	H0929		H0272	H3808	H4376	H3808	H3808	H3605	H6944	H6944	
	קִדְשֵׁים- परम-पवित्र	הוּא- वह	לְיְהוּהָ- यहोवा-के-लिए								
	H6944	H1931	H3068								

“एक विशेष प्रकार की भेंट है जिसे लोग यहोवा को चढ़ाते हैं। वह भेंट पूरी तरह यहोवा की है। वह भेंट न तो वापस खरीदी जा सकती है न ही बेची जा सकती है। वह भेंट यहोवा की है। उस प्रकार की भेंटें ऐसे लोग, जानवर और खेत हैं, जो परिवार की सम्पत्ति है।

29	כָּל- सब-	חָרָם- समर्पित	אֲשֶׁר- जो	יִתְּרָם- समर्पित किया जाए	מִן- से-	הָאָדָם- मनुष्य	לֹא- नहीं	יִפְדָּהּ- छुड़ाया जाएगा	מוֹת- मरना	יוֹמָתָהּ- मरेगा
	H3605				H0120	H0120	H3808	H6299	H4191	H4191

यदि वह विशेष प्रकार की यहोवा को भेंट कोई व्यक्ति है तो उसे वापस खरीदा नहीं जा सकता। उसे अवश्य मार दिया जाना चाहिए।

30	וְכָל- और-सब-	מֵעֶשֶׂר- दशमांश	הָאָרְצִי- देश-का	מִזֶּרַע- से-बीज	הָאָרְצִי- देश-के	מִפְרֵי- से-फल	הָעֵץ- पेड़-के	לְיְהוּהָ- यहोवा-के-लिए	הוּא- वह	קִדְשׁ- पवित्र	לְיְהוּהָ- यहोवा-के-लिए
	H3605	H4643	H0776	H2233	H0776	H6529	H6086	H3068	H1931	H6944	H3068

“सभी पैदावारों का दसवाँ भाग यहोवा का है। इसमें खेतों, फसले और पेड़ों के फल सम्मिलित हैं। वह दसवाँ भाग यहोवा का है।

31	וְאִם- और-अगर-	גָּאֵל- छुड़ाना	יִגָּאֵל- छुड़ाएगा	אִישׁ- मनुष्य	מִמֵּעֶשְׂרֵי- अपने-दशमांश-से	חֲמִשָּׁתוֹ- उसका-पाँचवाँ	יִסַּף- जोड़ेगा	עָלָיו- उस-पर
				H0376	H4643	H2549	H3254	

इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपना दसवाँ भाग वापस लेना चाहता है तो उसेक मूल्य का पाँचवाँ भाग उसमें जोड़ना चाहिए और वापस खरीदना चाहिए।

יְהִיָּה־	הַעֲשִׂירִי	הַשְּׁבִט	תַּחַת	יַעֲבֹר	אֲשֶׁר־	כֹּל	וְצֹאן	בְּקָרָ	מֵעֶשֶׂר	וְכֹל־	32
होगा-	दसवां	लाठी	के-नीचे	गुज़रेगा	जो-	सब	और-भेड़-का	बैल-का	दशमांश	और-सब-	
H1961	H6224	H7626	H8478			H3605	H6629	H1241	H4643	H3605	
									לִיתְנוּהָ:	קֹדֶשׁ	
									यहोवा-के-लिए	पवित्र	
									H3068	H6944	

“याजक व्यक्तियों के मवेशियों और भेड़ों में से हर दसवाँ जानवर लेगा। हर दसवाँ जानवर यहोवा का होगा।

יְמִירְנוּ	הִמְרָ	וְאִם־	יְמִירְנוּ	וְלֹא	לָרַע	טוֹב	בֵּין־	יִבְקָר	לֹא	33
अदला करेगा उसे	अदला करते-हुए	और-अगर-	अदला करेगा उसे	और-नहीं	या-बुरा	अच्छा	बीच-	जांचेगा	नहीं	
H4171	H4171		H4171	H3808			H0996	H1239	H3808	
		יִנְאָל־	לֹא	קֹדֶשׁ	יְהִיָּה־	וּתְמוֹרְתוֹ	הוּא	יְהִיָּה־		
		छुड़ाया जाएगा	नहीं	पवित्र	होगा-	और-इसकी-अदला	वह	और-होगा-		
			H3808	H6944	H1961	H8545	H1931	H1961		

मालिक को यह चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि वह जानवर अच्छा है या बुरा। उसे जानवर को अन्य जानवर से नहीं बदलना चाहिए। यदि वह बदलने का निश्चय करता है तो दोनों जानवर यहोवा के होंगे। वह जानवर वापस नहीं खरीदा जा सकता।”

סִינִי:	בְּהָר	יִשְׂרָאֵל	בְּנֵי	אֶל־	מֹשֶׁה	אֶת־	יְהוָה	צִוָּה	אֲשֶׁר	תְּמַצִּיחַ	אֵלֶּה	34
सीने	में-पर्वत	इस्राएल	पुत्रों-के-लिए	के-	मूसा	को-	यहोवाने	आज्ञा दी	जो	आज्ञाएं	ये	
H5514	H2022	H3478		H0413	H4872	H0853	H3068	H6680		H4687	H0428	

ये वे आदेश हैं जिन्हें यहोवा ने सीनें पर्वत पर मूसा को दिये। ये आदेश इस्राएल के लोगों के लिए हैं।